



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 32] नई दिल्ली, अगस्त 3-अगस्त 9, 2008, शनिवार/श्रावण 12-श्रावण 18, 1930  
No. 32] NEW DELHI, AUGUST 3-AUGUST 9, 2008, SATURDAY/SRAVANA 12-SRAVANA 18, 1930

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पुस्तक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (सब राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विभिन्न के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए सार्वजनिक विनियम (जिनमें सार्वजनिक प्रकार के आदेश, इन-विनियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, By-laws, etc., of a general character) issued by the Administrations of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Administrations of other than the Administrations of Union Territories)

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2008

सं.का.वि. 146.—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबंध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा नागर विमानन सुरक्षा संगठन (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1987 तथा नागर विमानन सुरक्षा (आयुश्लिष्टिक वर्ग 'ब' पद) भर्ती नियम, 1988 के प्रतिस्थापन में, सिवाय उन कार्यों के जो ऐसे प्रतिस्थापन से पूर्व किए गए अथवा छोड़े गए/किए जाने हैं, राष्ट्रपति नागर विमानन मंत्रालय के नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो में अधिलेखित तथा केन्द्रीय लिपिक के पद की भर्ती की प्रणाली को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमों को इसके द्वारा बनाते हैं :—

1. शीर्ष और शुरुआत.—(1) इन नियमों को नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2008 कहा जाए।

(2) ये नियम सार्वजनिक राजपत्र में उनके प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. भर्ती की संख्या, वर्गीकरण तथा चेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा सम्बद्ध चेतनमान इन नियमों की परिशिष्ट अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में विलिखित अनुसार होंगे।

3. भर्ती की प्रणाली, आयु-सीमा, अन्य योग्यताएं आदि.—उक्त पद की भर्ती की प्रणाली, आयु सीमा, योग्यताएं तथा इससे संबंधित अन्य विषय उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 14 में किए गए उल्लेख के अनुसार होंगे।

## 4. अयोग्यताएँ.—ऐसा कोई व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति/पत्नी जीवित हो, के साथ विवाह या विवाह का करार किया हो ;

(ख) जिसने जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह किया हो या विवाह का करार किया हो ।

उक्त पद के लिये नियुक्ति का फ़त्र नहीं होगा;

बशर्त कि केन्द्र सरकार यदि ऐसे विवाह को उक्त व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू पर्सनल लॉ के अंतर्गत अनुमति योग्य मानती हो तथा यह कि ऐसा करने के लिए वहाँ अन्य आधार हों, जिनसे किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रभाव से मुक्त रखा जा सके ।

5. छूट की शक्ति.—जहाँ केन्द्रीय सरकार की राय यह हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा व्यावहारिक है, इन नियमों के किसी श्रेणी या व्यक्तियों के वर्ग से संबंधित प्रावधानों में कोई छूट किन्हीं लिखित कारणों के लिए, आदेश द्वारा दी जा सकती है ।

6. बख़्त.—केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष श्रेणियों से संबंधित व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट तथा अन्य अनिवार्य छूटों को ये नियम प्रभावित नहीं करेंगे ।

## अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है अथवा गैर-चयन पद	क्या केन्द्र सरकार सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ, अनुमेय है	सीधी पत्ती के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. आसुलिपिक वर्ग 'घ'	5 <sup>th</sup> (2008) "कार्यभार पर आधारित ।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह वर्ग 'ग' अराजपक्षित मंत्रालयी	4000-100-6000	लागू नहीं	लागू नहीं	18 से 27 वर्ष के बीच (सरकारी सेवाओं के लिए समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुरूप सामान्य अभ्यर्थियों के मामले में 40 वर्ष तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में 45 वर्ष तक छूट के योग्य) नोट : आयु सीमा का निर्धारण करने के लिए विद्यत तिथि भारत के अभ्यर्थियों की ओर से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी (न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू तथा कश्मीर राज्य के लद्दाख़ दिवोजन, हिमाचल प्रदेश के लाहौल व स्पीति जिले और चम्बा जिले का पांगी उपमंडल, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि) ।

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएँ	क्या सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएँ प्रोन्नति प्राप्त अभ्यर्थियों के मामले में लागू होंगी	परिचीकृत अवधि, यदि कोई हो, जो				
(8)	(9)	(10)				
मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा : आवृत्ति में 80 शब्द प्रति मिनट की गति (अंग्रेजी अथवा हिन्दी)	लागू नहीं	दो वर्ष				
भर्ती की प्रणाली, क्या सीधी भर्ती अथवा प्रदोन्नति से अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेसन तथा पदों का प्रतिस्पर्धित विभिन्न प्रणालियों से पदा आना है	प्रदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेसन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड-जिनसे प्रदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेसन किया जाना है					
(11)	(12)					
संवर्ग में तीन वर्ष से अधिक नियुक्ति सेवा तथा कॉलम 8 में विनिर्दिष्ट अर्हता प्राप्त कनिष्ठ लिपिकों में से एक प्रतिस्पर्धी परीक्षा के माध्यम से चयन के द्वारा, जिसके विफल रहने पर कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं					
यदि विभागीय प्रदोन्नति समिति अस्तित्व में है, तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करने के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है					
(13)	(14)					
पुष्टि के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति में शामिल हैं :-	लागू नहीं।					
(1) निदेशक (प्रशासन) —अध्यक्ष (2) अवर सचिव (नागर विमानन) —सदस्य (3) उप सुरक्षा आयुक्त (नागर विमानन) नागर विमानन सुरक्षा व्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी —सदस्य						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. चरित्र लिपिक	4*(2008) "कार्यभार पर आधारित" घटकबद्धी के अध्यक्षीय	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', गैर-राजपत्रित, संश्लेषी	रु. 4000-100-6000	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं
(8)	(9)			(10)		
लागू नहीं	लागू नहीं			दो वर्ष		

(11)	(12)
प्रोन्नति जिसके विफल रहने पर प्रतिनियुक्ति	<p>प्रोन्नति : नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो में 8 वर्ष की नियमित तथा रु. 3050-75-3950-80-4590 के वेतनमान में कार्यरत कनिष्ठ लिपिकों में से ।</p> <p>प्रतिनियुक्ति :</p> <p>भारत सरकार के अधिकारियों में से :</p> <p>(क)(i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पदधारी, अथवा (ii) रु. 3050-75-3950-80-4590 के वेतनमान में कार्यरत अवर श्रेणी लिपिक अथवा कनिष्ठ लिपिक के पद में 8 वर्ष की नियमित सेवा सहित ।</p> <p>नोट 1 : फीडर श्रेणी में विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर भर्ती के लिए विचारार्थ पात्र नहीं होंगे ।</p> <p>नोट 2 : उसी संगठन अथवा विभाग में इस भर्ती से ठीक पहले किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि समेत प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्य तौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p> <p>नोट 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p>

(13)	(14)
<p>विभागीय पदोन्नति समिति में शामिल हैं—</p> <p>(1) निदेशक (प्रशासन) —अध्यक्ष</p> <p>(2) अवर सचिव, नागर विमानन मंत्रालय —सदस्य</p> <p>(3) रक्षा उपायुक्त, नागर विमानन नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी —सदस्य</p>	लागू नहीं ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. कनिष्ठ लिपिक	8*(2008) *कार्यभार के अनुसार फेरबदल के मद्देनजर	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', गैर-राजपत्रित मंत्रालयी	रु. 3050-75-3950-80-4590	लागू नहीं	लागू नहीं	<p>18 से 27 वर्ष के मध्य (समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के मामले में 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में वर्ष की आयु तक सरकारी कर्मचारी के लिए छूट)</p> <p>नोट 1 : आयु सीमा के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण तिथि भारत के उम्मीदवार से आवेदन की प्राप्ति के लिए अंतिम तारीख होगी (तथा न कि वह तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर का लद्दाख मंडल, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले का पांगी उपमंडल, अन्धमान निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के लिए निर्धारित की गई है)</p>

(8)	(9)	(10)
1. मैट्रिक या समकक्ष योग्यता 2. अंग्रेजी टाइपिंग में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति या हिन्दी टाइपिंग न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए क्योंकि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को इसके लिए छूट प्राप्ता होनी यदि वे अपंगता से संबंधित अर्थात् चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर संगत अनुदेशों के अनुसार वे मानक को पूरा करते हों।	लागू नहीं	लागू नहीं
(11)	(12)	
प्रतिनिधित्व/आमेलन द्वारा तथा ऐसा न होने पर कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	प्रतिनिधित्व/आमेलन : भारत सरकार के कार्यालयों में 3050-75-3950-80-4590 के वेतनमान में कार्यरत अवर श्रेणी लिपिकों या कनिष्ठ लिपिकों में से।	
(13)	(14)	
पुष्टि के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति में शामिल हैं :— 1. निदेशक (प्रशासन) —अध्यक्ष 2. अवर सचिव, नागर विमानन, मंत्रालय —सदस्य 3. रक्षक उपायुक्त, नागर विमानन विभाग —सदस्य विमानन सुरक्षा क्यूके के क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी	लागू नहीं।	

[सं. ए-12018/18/2002-प्रशा./एसएस/एसएसएस]

एस. गौरीशंकर, अवर सचिव

## MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 30th July, 2008

G.S.R. 146.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of Civil Aviation Security (Stenographer Group 'D' Posts) Recruitment Rules 1987 and the Bureau of Civil Aviation (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 1988 except as respect things done or omitted to be done before such supersessions, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade 'D', Senior Clerk and Junior Clerk in the Bureau of Civil Aviation Security under the Ministry of Civil Aviation, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Civil Aviation, Bureau of Civil Aviation Security, Group 'C' posts, Recruitment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**—No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Steno-grapher Grade 'D'	5* (2008) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial	Rs. 4000-100-6000	Not applicable	Not applicable	Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in the case of General candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Matriculation or equivalent examination. A speed of 80 words per minute stenography (English or Hindi)	Not applicable	Two years

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation or absorption to be made

(11)	(12)
By selection through a competitive examination from amongst Junior Clerks having not less than three years regular service in the grade and possessing the qualifications specified in column 8, failing which by direct recruitment through Staff Selection Commission.	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(13)	(14)
<p>Departmental Promotion Committee for confirmation consisting of:—</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Director (Administration) — Chairman</li> <li>2. Under Secretary (Ministry of Civil Aviation) — Member</li> <li>3. Deputy Commissioner of Security (Civil Aviation) — Member Incharge of the Regional Office of the Bureau of Civil Aviation Security</li> </ol>	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Senior Clerk	4* (2008) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial	Rs. 4000-100-6000	Selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years

(11)	(12)
Promotion failing which by deputation	<p><b>Promotion :</b> From amongst Junior Clerks in the pay scale of Rs. 3050-75-3950-80-4590 belonging to Bureau of Civil Aviation Security with eight years regular service in the grade.</p> <p><b>Deputation :</b> From amongst officers of the Government of India :</p> <p>(a)(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>(ii) with eight years regular service in the rank of Lower Division Clerk or Junior Clerk in the Pay Scale of Rs. 3050-75-3950-80-4590.</p>

(12)

**Note 1 :** The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.

**Note 2 :** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organization or department shall ordinarily not exceed three years.

**Note 3 :** The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years, as on the closing date of the receipt of applications.

(13)

(14)

**Departmental Promotion Committee for consisting of :—**

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Director (Administration)  | — Chairman |
| 2. Under Secretary (Ministry of Civil Aviation)   | — Member   |
| 3. Deputy Commissioner of Security, Civil Aviation<br>Incharge of the Regional Office of the Bureau of<br>Civil Aviation Security | — Member   |

Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Junior Clerk	8* (2008) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Not applicable	Not applicable	Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in the case of General candidates and upto 45 years in the case candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). <b>Note :</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).



1. Matriculation or equivalent qualifications
2. Minimum speed of 30 words per minute in English Typewriting or 25 words per minute in Hindi Typewriting provided that physically handicapped persons shall be exempted from the requirement if they qualify the criterion as per the relevant instructions based on the requisite medical certificate relating to disability

Not applicable

Two years

(11)

(12)

By deputation/absorption failing which by direct recruitment through Staff Selection Commission

Deputation/Absorption :  
From amongst Lower Division Clerks or Junior Clerks working in the Pay Scale of Rs. 3050-75-3950-80-4590 in the offices of the Government of India.

(13)

(14)

(For confirmation) :—

1. Director (Administration)
2. Under Secretary (Ministry of Civil Aviation)
3. Deputy Commissioner of Security, Civil Aviation Incharge of the Regional Officer of the Bureau of Civil Aviation Security

—Chairman  
—Member  
—Member

Not applicable

[No. A-12018/18/2002-Admn/SS/SFS]

S. GOWRI SHANKAR, Under Secy.

साधिका और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2008

सा.सं.नि. 147.—साधिका और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, तकनीकी सलाहकार (बायोलॉजिकल) समूह 'क' पर परी निवमावली, 2008 में, बिसे दिनांक 12 अप्रैल, 2008 के पत्र के संदर्भ में, भाग II, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) के पृष्ठ 283-289 पर भारत सरकार, साधिका और उद्योग मंत्रालय की दिनांक 28 मार्च, 2008 की अधिसूचना के तहत सा.सं.नि. संख्या 61 के तहत प्रकाशित किया गया था।—

अंग्रेजी पाठ की अनुसूची में—

- कालम 7 में 'लक्षद्वीप का अंडमन और निकोबार द्वीप समूह' के स्थान पर 'अंडमन और निकोबार द्वीप समूह का लक्षद्वीप' पढ़ा जाए।
- कालम 8 के तहत नोट-2 की अंतिम पंक्ति में 'रिजिस्ट्रार' के स्थान पर 'परीक्षक' पढ़ा जाए। (हिन्दी पाठ में 'रिजिस्ट्रार' के स्थान पर 'परीक्षक' पढ़ा जाए।)
- कालम 10 में 'एक वर्ष' के स्थान पर 'एक वर्ष' पढ़ा जाए।

[सा. संख्या ए-12018/2/2007-संख्या 1]

जी. भारद्वाज, अवर सचिव

2822 GI/08-2

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

## CORRIGENDA

New Delhi, the 29th July, 2008

G.S.R.147.—In the Ministry of Commerce and Industry, Department of Industrial Policy and Promotion, Technical Adviser (Boiler) Group 'A' post Recruitment Rules, 2008 published in the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry G.S.R. No.61 dated 28th March, 2008 at pages 283 -289 of the Gazette of India, Part-I, Section 3, Sub-Section (i) dated the 12th April, 2008:

In the Schedule of English version

- Under Column 7, read 'Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep' instead of 'Andaman and Nicobar Islands of Lakshadweep'
- Under Column 8, read 'posts' instead of 'vacancy' appearing in the last line of the Note-2. (In the Hindi version it may be read as पदों instead of रिक्तियों).
- Under Column 10, read 'one year' instead of 'one years'.

(F.No. A-12018/2/2007-E.1)

P. BHARDWAJ, Under Secy.

## संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2008

सा.क्र.वि. 148.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संस्कृति मंत्रालय, राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2006 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संस्कृति मंत्रालय, राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली समूह 'क' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. संस्कृति मंत्रालय, राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2006 की अनुसूची में —

(क) स्तंभ 6 में संग्रहाध्यक्ष (मुद्राशास्त्र एवं पुरालेख) के पद के संबंध में क्रम संख्या 3 पर 'लागू नहीं' प्रविष्टि के स्थान पर 'नहीं' रखा जाएगा।

(ख) स्तंभ 12 में उप-संग्रहाध्यक्ष (पाण्डुलिपि) के संबंध में क्रम संख्या 7 पर उप शीर्ष 'आवश्यक' के अधीन मद (iii) के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्तर्विष्ट की जाएगी, अर्थात् :

“(iv) पाण्डुलिपियों और फर्मानों (सम्राटों द्वारा जारी दस्तावेज) के क्षेत्र में एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव और प्रशिक्षण।”

[सं. एफ. 6-15/2002-एम-1 (भाग-1)]

एन. पी. जोशी, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र के भाग-2, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) सा.क्र.वि. 38 तारीख 10 मार्च, 2007 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

## MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 25th July, 2008

G.S.R. 148.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Culture, National Museum, New Delhi, Group 'A' Posts Recruitment Rules, 2006, namely :—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Culture, National Museum, New Delhi, Group 'A' Posts Recruitment (Amendment) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Ministry of Culture, National Museum, New Delhi Group 'A' Posts Recruitment Rules, 2006,

(a) against serial number 3, relating to the post of Curator (Numismatic and Epigraphy) in Column 6, for the entry 'Not applicable', the entry 'No' shall be substituted;

- (b) against serial number 7, relating to the post of Deputy Curator (Manuscripts), in Column 12, under the sub-heading Essential, after item (iii), the following item shall be inserted, namely:

“(iv) One year's practical experience and training in the field of Manuscripts and Funnans (Royal documents issued by emperors).”

[No. F. 6-15/2002-M-1 (Part-I)]

N. P. JOSHI, Under Secy.

Foot Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 38, dated 10th March, 2007.

### जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2008

सा.क्र.नि. 149.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1972, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (हिन्दी अनुवादक, श्रेणी-2 भर्ती नियम, 1977, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग पर्यवेक्षक-सहायक केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' (अवकाशपत्रित पद) भर्ती नियम, 1983 और गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग में टेलीकॉम ऑफिसर, जल संसाधन मंत्रालय (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1987 को उन बातों के सिवाय अधिस्तृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकांश से पूर्व किया गया है या करने से रोका गया है, जल संसाधन मंत्रालय के अधीन गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग में समूह 'ग' पद भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इस नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. विरहता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—यहां केन्द्रीय सरकार की यह शक्ति है कि ऐसा करण आवश्यक या समीचीन है, जहां वह उसके लिए को कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या वर्गों के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्याप्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
-----------	----------------	----------	---------	---------------------	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. प्रधान लिपिक	4*(2008) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ग, अराजपत्रित अनुसचिवीय	5000-150- 8000 रुपए	अचयन	लागू नहीं होता	नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होंगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
---	---

(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति : 4000-100-6000 रु. के वेतनमान में उच्च श्रेणी लिपिक के ग्रेड से ऐसे व्यक्ति जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है । प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से,— (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ख) ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 4000-6000 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है । टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

लागू नहीं होगा।

1. निदेशक, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग — अध्यक्ष
2. उप निदेशक, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग — सदस्य
3. गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना से बाहर का उप निदेशक या कार्यपालक इंजीनियर की पदवी का एक अधिकारी — सदस्य
4. प्रशासनिक अधिकारी, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना — सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. हिन्दी अनुवादक श्रेणी-2	01*(2008) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। अननुसंधीय।	संभारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित,	5000-150-8000 रु.	लागू नहीं होता	नहीं	28 वर्ष तक। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण 1 : आयु-सौम्य अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागलैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पोति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दृष्टि में, आयु-सौम्य अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी, जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(8)

(9)

(10)

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी/अंग्रेजी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा जिसमें स्नातक स्तर पर हिन्दी/अंग्रेजी मुख्य विषय के रूप में रही हो;

लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय

(8)

में स्नातकोत्तर उपाधि जिसमें शिक्षा तथा परीक्षा का माध्यम हिन्दी रहा हो और स्नातक स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य विषय के रूप में रहा हो;

या

हिन्दी और अंग्रेजी मुख्य विषय सहित स्नातक उपाधि या दोनों में से एक परीक्षा का माध्यम तथा दूसरा विषय के रूप में रहा हो और हिन्दी से अंग्रेजी या विपर्ययेन अनुवाद पाठ्यक्रम का डिप्लोमा प्रमाण पत्र या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के कार्यालयों में, जिसके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी हैं, हिन्दी से अंग्रेजी या विपर्ययेन अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव।

(11)

प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(12)

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से :

(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 4000-6000 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है; या

(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 3050-4500 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में बारह वर्ष नियमित सेवा की है; और

(ख) जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए यथा विहित अर्हताएं और अनुभव हैं।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(13)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

(14)

लागू नहीं होता

- |   |          |
|---|----------|
| 1. निदेशक, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग  | —अध्यक्ष |
| 2. उप निदेशक, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग   | —सदस्य   |
| 3. गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना से बाहर का उप निदेशक या कार्यपालक इंजीनियर की पंक्ति का एक अधिकारी | —सदस्य   |
| 4. प्रशासनिक अधिकारी, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना   | —सदस्य   |

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. आशुलिपिक श्रेणी-2	05*(2008) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ग, अराजपत्रित अनुसूचिवीय।	5000-150-8000 रु.	अवधन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(8)	(9)		(10)			
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता			

(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	<p>प्रोन्नति : 4000-100-6000 रु. की श्रेणी में से ऐसे आशुलिपिक (श्रेणी-3), जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के ऐसे आशुलिपिक :-</p> <p>(i) जो मूल कादर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल कादर या विभाग में ऐसे आशुलिपिक, जिन्होंने 4000-100-6000 रु. के या समतुल्य चेतनमान वाले पदों पर नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है; या</p> <p>प्रतिनियुक्ति : (क) केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :-</p> <p>(i) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने 4000-100-6000 रु. के या समतुल्य चेतनमान में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है;</p> <p>(ख) प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कादर का ह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि थी है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

(13)	(14)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	लागू नहीं होता।
1. निदेशक, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग	—अध्यक्ष
2. उप निदेशक, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग	—सदस्य
3. गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना से बाहर का उप निदेशक या कार्यपालक इंजीनियर की पंक्ति का एक अधिकारी	—सदस्य
4. प्रशासनिक अधिकारी, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना	—सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. कनिष्ठ इंजीनियर	05*(2008) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अनुसूचिवीय।	5000-150-8000 रु.	लागू नहीं होता	नहीं	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(11)	(12)
प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p>प्रतिनियुक्ति द्वारा : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल), जो भूल कांडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं।</p> <p>टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

(13)	(14)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. नक्शानवीस श्रेणी-2	03 <sup>a</sup> (2008) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिबीय।	5000-150-8000 रु.	अचयन	नहीं	<p>18 से 25 वर्ष के बीच।</p> <p>(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)</p> <p>टिप्पण 1 : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागलैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p> <p>टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>



(8)	(9)	(10)
<p>अवधारणा :</p> <p>(i) किसी कानूनप्रदाता बोर्ड/विश्वविद्यालय से मैट्रिक या समतुल्य;</p> <p>(ii) किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या समतुल्य प्रशिक्षण-प्राप्त संस्थानों से (सिविल या यांत्रिकी इंजीनियरी में) दो वर्षीय डिप्लोमा या प्रमाणपत्र;</p> <p>(iii) किसी छात्रावास संगठन में इसी व्यवस्था में तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण : अनुभव संबंधी अर्हता संबंधी प्राधिकारी के विवेका-नुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, उनके लिए जो कारण हैं, उन्हें संश्लेषण करके तब शिक्षित की जा सकती है जब चर्च के किसी प्रक्रम पर संबंधी प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आवश्यक स्थितियों को धरते हुए विशेष अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के कर्तव्य संश्लेषण उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए कुछ नहीं।

(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा जिसके नहीं सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	<p>प्रोन्नति :</p> <p>(i) 4000-100-6000 रु. के वेतनमान में ऐसा नवप्रवर्तनीय श्रेणी-3, जिसने उस श्रेणी में कम से कम वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>(ii) 3200-85-4900 रु. के वेतनमान में ऐसे केने प्रिन्टर, जिन्होंने उस श्रेणी में तरह-वर्ष नियमित सेवा की है।</p>

(13)	(14)
<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :—</p> <p>1. निदेशक, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग — अध्यक्ष</p> <p>2. उप निदेशक, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग — सदस्य</p> <p>3. गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना से बाहर का उप निदेशक या कार्यपालक इंजीनियर की पदवी का एक अधिकारी — सदस्य</p> <p>4. प्रशासनिक अधिकारी, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना — सदस्य</p>	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. उच्च श्रेणी लिपिक	04*(2008) कार्यभार के आधार पर परिचर्चा किया जा सकता है। अनुसूचिकीय	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित	4000-100-6000 रु.	अचयन	नहीं	27 वर्ष से अधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में 45 वर्ष तक शिक्षित की जा सकती है।)

(7)

आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।

(8)

(9)

(10)

किसी अन्यताप्रान्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समतुल्य।

लागू नहीं होता

सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष/प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए "शून्य"।

(11)

(12)

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति : ऐसे अवर श्रेणी लिपिक, जिनमें हिन्दी टंकक या टेलेक्स ऑपरेटर भी हैं, जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है।

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :

(i) जिन्होंने नियमित आधार पर सद्गुण पद धारण किया हुआ है; या

(ii) जिन्होंने अवर श्रेणी लिपिक या समतुल्य को श्रेणी में नियमित आधार पर उस श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की हो; और

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(13)

(14)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिनमें निम्नलिखित होंगे :—

लागू नहीं होता

1. निदेशक

—अध्यक्ष

2. उप निदेशक

—सदस्य

3. बाहर से उप निदेशक या कार्यपालक इंजीनियर की पॉक्त का एक अधिकारी

—सदस्य

4. प्रशासनिक अधिकारी

—सदस्य

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

7. आमुलिपिक श्रेणी-3

03\*(2008)

साधारण केन्द्रीय सेवा,

4000-100-6000 रु.

लागू नहीं होता

नहीं

18 से 27 वर्ष

\*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। अनुसूचितीय

(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।

(8)	(9)	(10)
1. वैदिक या समकालीन ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष
2. आनुवंशिक (आनुवंशिक या प्रजनन) में 80 तक प्रतिशत वृद्धि ।		

(11)	(12)
कर्मचारी कृषक आयोग को साक्षात्कार में लाना नहीं ।	लागू नहीं होता
टिप्पण : पदधारी को प्रतिनिधित्वित रूप में राष्ट्रीय योजना के अन्तर्गत कृषि या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर जाने के कारण हुई निमित्त, क्षेत्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनिधित्वित रूप में आयोग के रूप में लाने की जिम्मेदारी निम्नलिखित आयोग पर होगी कि वह अपने विचारों में और जिसने पदधारी 8 में सीधी नहीं के लिए निमित्त लाने हैं ।	

(13)	(14)
सर्वोच्च या निम्नतम प्रतिनिधित्वित, (दुर्घटना के लिए) निम्नलिखित निमित्तित्वित होंगे :-	लागू नहीं होता ।
1. निदेशक, राजा राज्य निम्नतम आयोग	—अध्यक्ष
2. उप निदेशक, राजा राज्य निम्नतम आयोग	—सदस्य
3. राजा राज्य निम्नतम आयोग, प्रत्यक्ष से बाहर का उप निदेशक या कार्यकारी इन्फोर्मेशन की पत्रिका का एक अधिकारी	—सदस्य
4. प्रशासनिक अधिकारी, राजा राज्य निम्नतम आयोग, प्रत्यक्ष	—सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. पञ्जाब राज्य के-III	81 (2008) निदेशक के आदेश पर प्रतिनिधित्वित का समकालीन है	राज्य के क्षेत्रीय सेवा, समकालीन आयोग	4000-100-6000 रु.	अध्यक्ष	नहीं	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुसूचियों का अपेक्षाओं के अनुसार सरकारी सेवाओं के लिए 40 वर्ष तक शिक्षित की जा सकती है) टिप्पण 1 : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तरीका भारत में अध्यापकों से 2 वेदन प्राप्त करने के लिए निमित्त की गई अधिनियम जारी होगी । (यदि वह अधिनियम जारी हो अलग, मेकलप, कठमापल प्रदेश, निम्नतम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लद्दाख और स्पेसिफिक रूप से जम्मू खिले के पानी दुर्गम, अंग्रेजों और निम्नतम द्वीप या लद्दाख के अध्यापकों के लिए शिक्षित की गई है ।)

(7)

टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से को जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(8)	(9)	(10)
आवश्यक :	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिक; या समतुल्य		प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कुछ नहीं।
(ii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या समतुल्य मान्यताप्राप्त संस्थाओं से (सिविल इंजीनियरी में) दो वर्षीय डिप्लोमा या प्रमाणपत्र		
वर्षिकीय : संबद्ध व्यवसाय में एक वर्ष का अनुभव।		
टिप्पण : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम अधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित स्थितियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने संभावना नहीं है।		

(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रोन्नति : 3200-85-4900 रु. के वेतनमान में ऐसे फेरो प्रिन्टर्स जिन्होंने विभागीय अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने के अधीन रहते हुए उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।

(13)	(14)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :	लागू नहीं होता।
1. निदेशक, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग	—अध्यक्ष
2. उप निदेशक, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग	—सदस्य
3. गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना से बाहर का उप निदेशक या कार्यपालक इंजीनियर की पंक्ति का एक अधिकारी	—सदस्य
4. प्रशासनिक अधिकारी, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना	—सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. वरिष्ठ कम्प्यूटर	01*(2008) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अनुसूचिकीय	4000-100-6000 रु.	अचयन	नहीं	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)
लगा नहीं होता	लगा नहीं होता	लगा नहीं होता
(11)	(12)	
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	<p>प्रोन्नति : 3050-75-3950-80-4590 रु. के वेतनमान में ऐसे कनिष्ठ कम्प्यूटर जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :</p> <p>(i) जिन्होंने मूलकादर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या</p> <p>(ii) ऐसे कनिष्ठ कम्प्यूटर जिन्होंने मूल कादर या विभाग में 3050-4590 रु. के या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की है।</p> <p>टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कादर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	

(13)	(14)
समूह 'न' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें नियुक्ति/प्रोन्नति होती है :—	लगा नहीं होता।
1. निदेशक, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग —अध्यक्ष	
2. उ-निदेशक, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग —सदस्य	
3. गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना से बाहर का उप-निदेशक या कार्यपालक इंजीनियर की पदों का एक अधिकारी —सदस्य	
4. प्रशासनिक अधिकारी, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना —सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10. फेरो प्रिन्टर	02*(2008) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। अननुसन्धित	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'अ', अराज्यप्रति	3200-85-4900 रु.	लगा नहीं होता	नहीं	<p>18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)</p> <p>टिप्पण 1 : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अध्यापकों से आवेदन प्राप्त करने के लिए निम्न की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लद्दाख और स्थिति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और</p>

(7)

निकोबार द्वीप या लकड्वीप के अभ्यर्षियों के लिए विहित की गई है।)

टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(8)	(9)	(10)
आवश्यक :	लागू नहीं होता	दो वर्ष
1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता		
2. फेरो प्रिन्टिंग में एक वर्ष का अनुभव		

(11)	(12)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

(13)	(14)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :—	लागू नहीं होता।
1. निदेशक, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग	—अध्यक्ष
2. उप-निदेशक, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग	—सदस्य
3. गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना से बाहर का उप-निदेशक या कार्यपालक इंजीनियर की पंक्ति का एक अधिकारी	—सदस्य
4. प्रशासनिक अधिकारी, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना	—सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11. अवर श्रेणी लिपिक जिनमें हिंदी टंकक भी हैं।	09* (2008) *कार्यभार की आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सहायक केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', असंलग्नित अनुसूचितीय।	3050-75-3950-80-4590 रु.	अचयन	नहीं	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण 1 : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाए।

(8)	(9)	(10)
अवधि:	सं. स्तंभ II में उपरि	दो वर्ष
1. किसी प्रशिक्षण बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता	सीमा तक	
2. अर्हता में 30 मिनट या हिंदी में 25 मिनट प्रति मिनट की टंकित गति		

(11)	(12)
(1) 85 प्रतिशत कर्मचारी जिनका आयु के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	जैसा कि स्तंभ II में कथित है
(2) इस प्रतिशत रिक्तियाँ ऐसे समूह 'ब' कर्मचारियों में से भरी जाएंगी जिनके पास मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता है और जिन्होंने लिखायी अर्हक परीक्षा के आधार पर समूह 'ब' में पांच वर्ष निर्धारित सेवा की है।	
परीक्षा की शर्तों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष (50 वर्ष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए) है।	
टिप्पणी: यदि खंड (2) के अधीन उपर्युक्त रिक्तियों की संख्या से अधिक ऐसे कर्मचारी उक्त परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं तो ऐसे कर्मचारियों की अधिक ऐसी संख्या पर परभावपूर्ण वर्षों में इरफान होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा जिससे पूर्वतर परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर कट बतली परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों से सबसे विचार किया जा सके।	
(3) रिक्तियों की पांच प्रतिशत रिक्तियाँ ऐसे समूह 'ब' कर्मचारियों में से ज्येष्ठता-सह-कोषण के आधार पर भरी जाएंगी, जिनके पास मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता है।	

(13)	(14)
समूह 'ग' विभागीय प्रोग्रेस समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे —	रखा नहीं होता।
1. निदेशक, गंगा कद निबंधन आयोग	—अध्यक्ष
2. उप-निदेशक, गंगा कद निबंधन आयोग	—सदस्य
3. गंगा कद निबंधन आयोग, पटना से बाहर का उप-निदेशक या कार्यपालक इंजीनियर की पंक्ति का एक अधिकारी	—सदस्य
4. प्रशासनिक अधिकारी, गंगा कद निबंधन आयोग, पटना	—सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12. कनिष्ठ कम्प्यूटर	03*(2008) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', असहपत्रित अनुसूचिनीय।	3050-75-3950-80-4590 रु.	रखा नहीं होता	नहीं	18 से 25 वर्ष की सीमा (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिपिल की जा सकती है) टिप्पणी: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अध्यापकों से आवेदन प्राप्त करने के लिए निष्का की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख

(7)

जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पू जिले के भांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अध्याधिकृत के लिए विहित की गई है।)

टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(8)	(9)	(10)
आवश्यक :	लागू नहीं होता	दो वर्ष
1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता जिसमें गणित एक विषय के रूप में रहा हो।		

(11)	(12)
सीधी भर्ती-दस्ता	लागू नहीं होता

(13)	(14)
समूह 'ग' विभागीय प्रोत्थिति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :—	लागू नहीं होता।
1. निदेशक, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग	—अध्यक्ष
2. उप-निदेशक, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग	—सदस्य
3. गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना से बाहर का उप-निदेशक या कार्यपालक इंजीनियर की पोस्ट का एक अधिकारी	—सदस्य
4. प्रशासनिक अधिकारी, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना	—सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13. टेलेक्स आपरेटर	01*(2008) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। अननुसंधितीय।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित	3050-75- 3950-80- 4590 रु.	लागू नहीं होता	नहीं	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)



(7)

टिप्पण्य 1 : आयु अंतिम अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अन्धविश्वसों से आनेवाले त्रास करने के लिए निम्नलिखित अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख, काठ, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिति जिले तथा चम्पा जिले के पहाड़ी उपखण्ड, अरुणाचल और मिज़ोरम द्वीप या लक्षद्वीप के अन्धविश्वसों के लिए निर्धारित की गई है।)

टिप्पण्य 2 : रोजगार कार्यलयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(8)	(9)	(10)
अवधिमान्य :	शामू नहीं होता	दो वर्ष
1. किसी सम्प्रदायिक बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य आईए		
2. किसी सम्प्रदायिक संस्थान से टेलीक्स और टेलीक्स प्रिन्टर सम्बन्धित तारीखें निर्धारित हों।		
संकेतिक : टेलीक्स और टेलीक्स प्रिन्टर यन्त्रों चलाने का एक वर्ष का अनुभव		

(11)	(12)
सभी भाई द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा :	प्रतिनियुक्ति : कोन्दीय सम्प्रदाय/विभागों में 3050-75-3950-80-4590 रु. के वेतनमान में कार्यरत टेलीक्स ऑपरेटर
	टिप्पण्य : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले भारित किसी अन्य व्यक्ती आह्वय पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, सम्प्रदायिक तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(13)	(14)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि या विचार करने के लिए)	शामू नहीं होता।
नियुक्ति में विचारित/विचारित होने :-	
1. निदेशक, गंगा कांड नियंत्रण आयोग	—अध्यक्ष

(13)

2. उप निदेशक, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग	—सदस्य
3. गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना से बाहर का उप निदेशक या कार्यप्रसक्त इंजीनियर की पंक्ति का एक अधिकारी	—सदस्य
4. प्रशासनिक अधिकारी, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना	—सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14. चालक (बीप/स्टाफ कार)	02*(2008) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। अननुसन्धित	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराज्यपत्रित	3050-75-3950-80-4590 रु.	लागू नहीं होता	नहीं	25 वर्ष से अनधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण 1 : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के प्रांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(8)	(9)	(10)
अवश्यक :	लागू नहीं होता	दो वर्ष
(1) जिनके पास मोटरकार के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति है।		
(2) मोटर यांत्रिकी का ज्ञान। (अभ्यर्थी यानों में लघु त्रुटियों को दूर करने में समर्थ होना चाहिए)		
(3) मोटर कार चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव।		
(4) ठीकी कक्षा उत्तीर्ण।		
बैठनीय : (1) होमगार्ड या सिविल स्वयं सेवी के रूप में तीन वर्ष की सेवा।		

(8)

टिप्पण : अनुपम संबंधों अर्थात् सकल प्रभिकारी को नियोजनकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की दशा में उन रिक्तियों को भरा जा सकता है जब तक कि किसी प्रकार पर सकल प्रभिकारी को यह पता है कि उनके लिए अपेक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुपम रखने वाले उन समुदायों के व्यक्तियों को पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(11)

प्रतिनिधित्व/आयोजन जिसमें न हो सकने पर सीधी जाति द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनिधित्व/पुनर्निर्माण

(12)

अर्थव्यवस्था : रंग बंध निबंधन अधिनियम में ऐसे निर्दिष्ट सकार हस्ताक्षर समूह ('ग') और समूह ('ब') कर्मचारी जो गेटर कार चलाने की संख्या का मूल्यांकन करने के लिए चलान परीक्षा के आधार पर परीक्षाओं को चलाने के लिए वैध चलान अनुमति रखते हैं जिसमें न हो सकने पर निर्दिष्ट आधार पर सकार हस्ताक्षर का यह ध्यान करने वाले परभिकारी या केन्द्रीय सरकार के अन्य संस्थापकों में निर्दिष्ट समूह 'ब' कर्मचारी को साथ 8 में पदों परिलक्षित अवसरों अर्थात् पूरी करते हैं।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए : प्रतिनिधित्व/पुनर्निर्माण :

सकार बंध को ऐसे व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवाविपुल होने वाले हैं या रिक्तियों में स्वयंसेवक किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुपम और विहित अर्थात् हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तरीका तक प्रतिनिधित्व के निर्धारों पर एक प्रस्ताव जिस तरीका से उन्हें सकार बंध से निर्मुक्त किया जाय है; सकार बंध उन्हें पुनर्निर्माण पर करने देने दिया जा सकता है।

प्रतिनिधित्व/सकार की अवधि, जिसमें अंतर्गत केन्द्रीय सरकार को उली या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले करिता किसी अन्य कारर प्राप्त पर पर प्रतिनिधित्व की अवधि है, अवसरानुसार 3 वर्षों के अधिक नहीं होगी।

(13)

समूह 'ग' विज्ञानीय क्रियाशील सभित (पुष्टि का विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. निदेशक, रंग बंध निबंधन अधिनियम —अध्यक्ष
2. उप निदेशक, रंग बंध निबंधन अधिनियम —सदस्य
3. रंग बंध निबंधन अधिनियम, पटना से कलर का उप निदेशक या कार्यवाहक इंजीनियर की पदवी का एक अधिकारी —सदस्य
4. प्रशासनिक अधिकारी, रंग बंध निबंधन अधिनियम, पटना —सदस्य

(14)

समूह नहीं होय

## MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 8th August, 2008

**G.S.R. 149.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ganga Flood Control Commission (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 1972, the Ganga Flood Control Commission (Hindi Translator, Grade II) recruitment Rules, 1977, the Ganga Flood Control Commission Supervisor—General Central Service Group 'C' (Non-Gazetted post) Recruitment Rules, 1983 and the Telex Operator in the Ganga Flood Control Commission, Ministry of Water Resources (Group 'C' post) Recruitment Rules, 1987, except as respects things done or omitted to be done, before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' posts in Ganga Flood Control Commission, under the Ministry of Water Resources, namely:—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, Ganga Flood Control Commission (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

**4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

**5. Disqualifications.**—No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**6. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**7. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Head Clerk	4* (2008) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial	Rs. 5000-150-8000	Non-Selection	Not applicable	No



(7)

determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

**Note : 2** In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names.

(8)	(9)	(10)
<p>Master's Degree from a recognized University in Hindi or English with English or Hindi as a main subject at the degree level; or</p> <p>Master's Degree from a recognized University in any subject with Hindi as the medium of instruction and examination with English as a compulsory subject at degree level; or</p> <p>Bachelor's degree with Hindi and English as main subjects or either of the two as medium of examination and other as a main subjects plus recognized Diploma or Certificate Course in translation from Hindi to English and vice versa or two years experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central or State Government offices, including Government of India Undertakings</p>	Not applicable	Two years for direct recruits

(11)	(12)
By deputation falling which by direct recruitment	<p><b>Deputation :</b></p> <p><b>From amongst Officers of the Central Government :</b></p> <p>(a)(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with eight years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 4000-6000 or equivalent in the parent cadre or department; or</p> <p>(iii) with twelve years service in the grade rendered after appointment</p>

(12)

thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 3050-4590 or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) Possessing the qualifications and experience as prescribed for direct recruitment.

**Note 1 :** The departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by absorption.

**Note 2 :** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department shall ordinarily not exceed three years.

(13)

(14)

**Group 'C' Departmental Promotion Committee for confirmation consisting of:-**

Not applicable.

1. Director Ganga Flood Control Commission — Chairman
2. Deputy Director, Ganga Flood Control Commission — Member
3. An Officer of the rank of Deputy Director or Executive Engineer from outside Ganga Flood Control Commission, Patna — Member
4. Administrative Officer, Ganga Flood Control Commission, Patna — Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Steno-grapher Grade-II	5* (2008) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Rs. 5000-150-8000	Not Selection	Not applicable	Not applicable
(8)	Not applicable			(9)	Not applicable	
Not applicable			Not applicable		Not applicable	

(11)

(12)

Promotion failing which by deputation

**Promotion :** Promotion from Stenographers Grade-III in the scale of pay of Rs. 4000-100-6000 with eight years regular service in the grade.  
**Deputation :**

(A) Officers of the Central Government :

(i) Holding analogous post on regular basis; or  
(ii) with eight years regular service in the pay scale of Rs. 4000-6000 or equivalent.

(B) Period of Deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the

(12)
same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Age not exceeding 56 years on the last day of calling for applications.

(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:—	Not applicable.
1. Director Ganga Flood Control Commission — Chairman	
2. Deputy Director, Ganga Flood Control Commission — Member	
3. An Officer of the rank of Deputy Director or Executive Engineer from outside Ganga Flood Control Commission, Patna — Member	
4. Administrative Officer, Ganga Flood Control Commission, Patna — Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. Junior Engineer	5* (2008) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 5000-150-8000	Non-Selection	No	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(11)	(12)
By deputation	<p><b>By Deputation:</b> Junior Engineer (Civil) of Central or State Government holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department.</p> <p><b>Note:</b> Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same Organization or Department or some other Central Government Department shall ordinarily not exceed three years.</p>

(13)	(14)
Not applicable	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. Draftsman Grade-II	3* (2008) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 5000-150-8000	Non-Selection	No	Between 18-25 years (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).



(7)

Note 1.—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

Note 2.—In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names.

(8)	(9)	(10)
<p>Essential :</p> <p>(i) Matriculation or equivalent from a recognized Board/University.</p> <p>(ii) Two years' Diploma or Certificate (in civil or mechanical engineering) from an Industrial Training Institute or equivalent; and</p> <p>(iii) Three years experience in the line in an organization of repute.</p> <p>Note : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	Not applicable	Two years for direct recruits Nil for promotees.
(11)	(12)	
By deputation failing which by direct recruitment	<p>Promotion :</p> <p>(i) Draftsman Grade-III in the pay scale of Rs. 4000-100-6000 with eight years regular service in the grade.</p>	

(12)

(ii) Ferro-Printers in the pay scale of Rs. 3200-85-4900 with thirteen years regular service in the grade.

(13)

(14)

Group 'C' Departmental Promotion Committee for consisting of:—

Not applicable.

1. Director, Ganga Flood Control Commission — Chairman
2. Deputy Director, Ganga Flood Control Commission — Member
3. An Officer of the rank of Deputy Director or Executive Engineer from outside Ganga Flood Control Commission, Patna — Member
4. Administrative Officer, Ganga Flood Control Commission, Patna — Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. Upper Division Clerk	04* (2008) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted/ Ministerial	Rs. 4000-100-6000	Non-Selection	No	Not exceeding 27 years (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in the case of general candidates and 45 years in the case of SCs/STs in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

(8)

(9)

(10)

Degree of a recognized University or equivalent.

Not applicable

Two years for direct recruitment.  
'Nil' for promotees.

(11)

(12)

By deputation failing which by direct recruitment.

Promotion:

From amongst Lower Division Clerk including Hindi Typist or Telex Operator with eight years regular service in the grade.

Deputation:

From amongst Officers of the Central Government:

(i) holding analogous post on regular basis; or

(ii) with eight years regular service in the grade of Lower Division Clerk or equivalent.

(The period of deputation including the period of deputation held against another ex-cadre post immediately preceding this appointment in the same or some other organization shall not ordinarily exceed three years.)

(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:—	Not applicable.
1. Director — Chairman	
2. Deputy Director — Member	
3. An Officer of the rank of Deputy Director or Executive Engineer from outside — Member	
4. Administrative Officer — Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. Steno-grapher Grade-III	GS* (2006) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted/ Ministerial	Rs. 4000-100-6000	Not applicable	Not applicable	18-27 years (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

(8)	(9)	(10)
1. Manipulation or equivalent	Not applicable	Two years
2. A speed of 80 w.p.m. in stenography (English or Hindi)		

(11)	(12)
Direct recruitment through Staff Selection Commission Note : Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on transfer on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruitment at column 2.	Not applicable

(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering of confirmation) consisting of:—	Not applicable.
1. Director Ganga Flood Control Commission — Chairman	
2. Deputy Director, Ganga Flood Control Commission — Member	
3. An Officer of the rank of Deputy Director or Executive Engineer from outside Ganga Flood Control Commission, Patna — Member	
4. Administrative Officer, Ganga Flood Control Commission, Patna — Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. Draftsman Grade-III	01* (2008) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted/ Non-Ministerial	Rs. 4000-100-6000	Non-Selection	No	Between 18-25 years (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). <b>Note 1.</b> —The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). <b>Note 2.</b> —In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names.

(8)	(9)	(10)
<b>Essential :</b> (i) Matriculation or equivalent from a recognized Board. (ii) Two years' Diploma or Certificate (in civil engineering) from an Industrial Training Institute or equivalent recognized Institutions.	Not applicable	Two years for direct recruitment, Nil for promotees.

**Desirable :**

One year experience in the concerned line.

**Note :** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(11)	(12)
By Promotion failing which by direct recruitment	<b>Promotion :</b> From amongst the Egro-Printers in the pay scale of Rs. 3200-85-4900 with five years regular service in the grade, subject to the passing of a Departmental Qualifying Test.

(13)	(14)
<b>Group 'C' Departmental Promotion Committee, consisting of :—</b>	Not applicable
1. Director, Ganga Flood Control Commission — Chairman	
2. Deputy Director, Ganga Flood Control Commission — Member	
3. An Officer of the rank of Deputy Director or Executive Engineer from outside Ganga Flood Control Commission, Patna — Member	
4. Administrative Officer, Ganga Flood Control Commission, Patna — Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. Senior Computer.	01* (2008) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted/Non-Ministerial	Rs. 4000-100-6000	Non-Selection	No.	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(11)	(12)
By promotion failing which by deputation	<b>Promotion :</b> From amongst Junior Computers in the pay scale of Rs. 3050-75-3950-80-4590 with eight years regular service in the grade. <b>Deputation :</b> From amongst officers of the Central Government :— (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) Junior Computer with eight years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 3050-4590 or equivalent in the parent cadre or department. <b>Note :</b> Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same Organisation or Department or some other Central Government Department shall ordinarily not exceed three years.

(13)	(14)
<b>Group 'C' Departmental Promotion Committee for consisting of :—</b>	Not applicable
1. Director, Ganga Flood Control Commission — Chairman	

(13)

- |    |  |           |
|----|--|-----------|
| 2. | Deputy Director, Ganga Flood Control Commission  | ---Member |
| 3. | An Officer of the rank of Deputy Director or Executive Engineer from outside Ganga Flood Control Commission, Patna | ---Member |
| 4. | Administrative Officer, Ganga Flood Control Commission, Patna  | ---Member |

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10. Ferro Printer	02* (2008) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 3200-85-4900	Not applicable	No.	Between 18-25 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 1.—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). Note 2.—In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names.

(8)	(9)	(10)
Essential:	Not applicable	Two years
1. Matriculation or equivalent qualification from a recognized Board or University.		
2. One year experience in Ferro Printing.		

(11)	(12)
By direct recruitment	Not applicable

(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering of confirmation) consisting of :—	Not applicable
1. Director, Ganga Flood Control Commission — Chairman	
2. Deputy Director, Ganga Flood Control Commission — Member	
3. An Officer of the rank of Deputy Director or Executive Engineer from outside Ganga Flood Control Commission, Patna — Member	
4. Administrative Officer, Ganga Flood Control Commission, Patna — Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11. Lower Division Clerk including Hindi Typist	09* (2008) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted/ Ministerial	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Non-selection	No.	Between 18-27 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 1.—The crucial date for determining the age limit shall be fixed by the Staff Selection Commission.

(9)	(10)
Essential:	Yes, to the extent indicated in Col. 11.
1. Matriculation or equivalent qualification from a recognized Board or University.	Two years
2. A typing speed of 30 w.p.m. in English or 25 w.p.m. in Hindi.	

(11)	(12)
(1) 85% by direct recruitment through Staff Selection Commission. (2) 10% of vacancies shall be filled up from amongst the Group D staff who possess Matriculation or equivalent qualifications and have rendered 5 years regular service in Group D, on the basis of a Departmental qualifying Examination. The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years (50 years of age for the Schedule Caste/Schedule Tribe.) Note : If more of such employees than the number of vacancies available under clause (2) qualify at the said examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later Examination.	as stated in Col. 11.
(3) Five per cent of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from Group D employees who possess matriculation or equivalent qualification.	

(13)	(14)
<b>Group 'C' Department Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :—</b>	<b>Not applicable</b>
1. Director, Ganga Flood Control Commission — Chairman	
2. Deputy Director, Ganga Flood Control Commission — Member	
3. An Officer of the rank of Deputy Director or Executive Engineer from outside Ganga Flood Control Commission, Patna — Member	
4. Administrative Officer, Ganga Flood Control Commission, Patna — Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12. Junior Computer	3* (2008) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted/ Non-Ministerial	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Not applicable	No.	Between 18-25 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). <b>Note 1.</b> —The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). <b>Note 2.</b> —In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names.

(8)	(9)	(10)
Matriculation or equivalent qualification from a recognized Board or University with mathematics as one of the subjects.	Not applicable	Two years



(11)	(12)
By direct recruitment.	Not applicable.
(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering of confirmation) consisting of : —	Not applicable.
1. Director, Ganga Flood Control Commission — Chairman	
2. Deputy Director, Ganga Flood Control Commission — Member	
3. An Officer of the rank of Deputy Director or Executive Engineer from outside Ganga Flood Control Commission, Patna — Member	
4. Administrative Officer, Ganga Flood Control Commission, Patna — Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13. Telco Operator	Dt* (2008) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Not applicable	No	<p>Between 18-25 years. (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p>Note 1.—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lehwal and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).</p> <p>Note 2.—In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names.</p>

(8)	(9)	(10)
<b>Essential :</b>		
1. Matriculation or equivalent qualification from a recognized Board or University.	Not applicable	Two years
2. Passed Telex and Tele-printer course from a recognised Institute.		
<b>Desirable :</b>		
One year experience in handling the Telex or Tele-printer machine.		

(11)	(12)
By direct recruitment failing which by deputation.	<b>Deputation :</b> Telex Operator in the pay scale of Rs. 3050-75-3950-80-4590 working in the Central Government/Departments. <b>Note :</b> Period of deputation including period of deputation in another-ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organization or some other Central Government department shall ordinarily not exceed three years.

(13)	(14)
<b>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering of confirmation) consisting of : —</b> 1. Director Ganga Flood Control Commission — Chairman 2. Deputy Director, Ganga Flood Control Commission — Member 3. An Officer of the rank of Deputy Director or Executive Engineer from outside Ganga Flood Control Commission, Patna — Member 4. Administrative Officer, Ganga Flood Control Commission, Patna — Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14. Driver Jeep (Staff Car).	2* (2008) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 3050-75-3950-80-4590.	Not applicable	No	Not exceeding 25 years. (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). <b>Note I—</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Anadman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining

	(9)	(10)
	Not applicable	Two years
<b>Essential:</b> (1) Possession of a valid driving licence for motor cars. (2) Knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor defects in vehicles). (3) Experience of driving a motor car for at least 3 years. (4) Pass in 8th Standard.		
<b>Desirable:</b> (1) 5 years' service as Home Guard/Civil Volunteers.		
<b>Note:</b> The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserve for them.		

(11)	(12)
<b>Deputation/adsorption filling which by direct recruitment.</b> <b>For ex-servicemen Deputation/Re-employment</b>	<b>Absorption:</b> From amongst the regular dispatch rider (Group 'D' employees in the Ganga Flood Control Commission who possesses a valid driving license for motor cars on the basis of a driving test to assess the competence to drive motor cars) filling which from officials holding the post of dispatch rider on regular basis or regular Group 'D' employees in other Ministries of the Central Government who fulfill the necessary qualifications as mentioned in Column 8. <b>For ex-servicemen Deputation/Re-employment:</b> The armed forces personnel who are due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having a requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for relief from the armed forces; thereafter they may be continued on re-employment. (The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held either immediately preceding or subsequent to the appointment or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.)

Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:—

1. Director Ganga Flood Control Commission

— Chairman

Not applicable.

(13)

2. Deputy Director, Ganga Flood Control Commission	—Member
3. An Officer of the rank of Deputy Director or Executive Engineer outside from Ganga Flood Control Commission, Patna	—Member
4. Administrative Officer, Ganga Flood Control Commission, Patna	—Member

[F. No. 22/4/2001-ER/Ganga]

JEETENDAR CHADHA, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2008

स.अ.वि. 150.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1972, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग कनिष्ठ गेस्टेटर, आपरेटर साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'घ' (अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1977 गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग और समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 1984 को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकांश से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, जल संसाधन मंत्रालय के अधीन गंगा बाढ़ नियंत्रण में समूह 'घ' पद भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इस नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम इससे उपबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातों को होंगी जो पूर्वाक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. चपरासी, सफाईवाला और चौकीदार के रूप में नियुक्त व्यक्तियों का होमगार्ड के रूप में प्रशिक्षण लेने का अधिकार.—इन नियमों में अन्तर्लिखित किसी बात को होते हुए, इन नियमों के अधीन चपरासी, सफाईवाला और चौकीदार के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, उन व्यक्तियों को छोड़ कर जो शरीरिक्त रूप से विकलांग हैं, तीन वर्ष की अवधि तक होमगार्ड के रूप में प्रशिक्षण लेगा।

परन्तु महा सम्मोह, होम गार्ड प्रशिक्षण की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए प्रशिक्षण के निष्पादन और उसके कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए, उसके लिए, जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, ऐसी अवधि को कम करके दो वर्ष तक कर सकेगा।

6. निरर्हता.—वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. क्रियान्वित करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, जहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या वर्गों के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुच्छेद

यह वह नाम	वर्गों की संख्या	वर्गीकरण	पेंशनमान	चयन आयोग अथवा पर	रोक में कोई भी नहीं का प्रस्ताव संघीय विधित संघ (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत अनुच्छेद ई का नहीं	सीधे नहीं किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अनु-सीमा
-----------	------------------	----------	----------	---------------------	---	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. कनिष्ठ मस्टेयर आर्सेलर	01 * (2000) *कर्मचारियों के आय का परिवर्तन किया गया का संख्या है। अनुसूचीवीं।	संयोजन कोणीय संघ, संयुक्त, 4000 रु.	2550-65- 3300-75	अथवा	नहीं	संयुक्त नहीं होता

सीधे नहीं किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा सैनिक और अन्य अर्थात्	सीधे नहीं किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अनु और सैनिक वर्गों में प्रोन्नत व्यक्तियों की बात में संयुक्त नहीं है	सैनिकों की संख्या, यदि कोई हो
--	---	-------------------------------

(8)	(9)	(10)
संयुक्त नहीं होता	संयुक्त नहीं होता	संयुक्त नहीं होता

वर्गों की संख्या : नहीं सीधे नहीं के प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनिधित्वमानेता द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भी जाने वाले पदों की प्रतिस्थापन	प्रोन्नति प्रतिनिधित्वमानेता द्वारा नहीं सीधे नहीं के प्रोन्नति द्वारा प्रतिनिधित्वमानेता द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों
--	---

(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा :	प्रोन्नति : ऐसे व्यक्तियों का प्रस्ताव विधियों 24(1)-65-24(2)-65-24(3)-65 के प्रस्ताव में से सर्व निम्नित संघ की है और प्रोन्नत व्यक्तियों के प्रस्ताव तथा प्रस्ताव में प्रोन्नत संख्या हो :

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संख्या	वर्गों वाली में किन वर्गीकरणों में से प्रोन्नत व्यक्तियों अथवा के प्रस्तावों का प्रस्ताव
--	---

(13)	(14)
संयुक्त 'ब' विभागीय प्रोन्नति समिति विधियों निम्नलिखित होंगे :-	संयुक्त नहीं होता

1. उप निदेशक, गंगा नदी निबंधन आयोग, पटना — अथवा
2. गंगा नदी निबंधन आयोग, पटना से बाहर का सहायक निदेशक  
या सहायक इंजीनियर की पदों का एक अधिकारी — अथवा
3. प्रादेशिक अधिकारी, गंगा नदी निबंधन आयोग, पटना — अथवा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. ज्येष्ठ चपरासी	03*(2008) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह घ, अराजपत्रित, अनुसूचित	2610-60- 3150-65- 3540 रु.	अवकाश	नहीं	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : ऐसे चपरासी जिन्होंने 2550-55-2660-60-3200 रुपये के वेतनमान में दो वर्ष नियमित सेवा की है।

(13)	(14)
समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :—	लागू नहीं होता।
1. उप-निदेशक, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना	—अध्यक्ष
2. गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना से बाहर का सहायक निदेशक या सहायक इंजीनियर की पंक्ति का एक अधिकारी	—सदस्य
3. प्रशासनिक अधिकारी, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना	—सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. इफ्तारी	01*(2008) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ', अराजपत्रित, अनुसूचित	2610-60- 2900-65- 3300-70- 4000 रु.	अवकाश	नहीं	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : ऐसे चपरासी जिन्होंने गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग में 2550-55-2660-60-3200 रुपये के वेतनमान में कम से कम दो वर्ष नियमित सेवा की है।

(13)

(14)

समूह 'ब' विभागीय प्रोन्सी सचिवालय विद्यमान निम्नलिखित होंगे—

1. उप-निदेशक, गंगा काद निदेशन आयोग, पटना —अध्यक्ष
2. गंगा काद निदेशन आयोग, पटना से बाहर का सहायक निदेशक  
या सहायक इंजीनियर की पदवी का एक अधिकारी —सदस्य
4. प्रशासनिक अधिकारी, गंगा काद निदेशन आयोग, पटना —सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. चपरासी	09*(2008) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। अनुसूचितीय	संभारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ब', जराजयप्रित, अनुसूचितीय	2550-55- 2660-60- 3200 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा सम्य-समय पर करी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिपिल की जा सकती है)। टिप्पण : अनु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए निश्चित की गई अंतिम-तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लक्ष्य खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्प्रीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, अनु- सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस को रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(8)

(9)

(10)

आवश्यक :  
मिडिल स्कूल स्तर उत्तीर्ण।

लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के  
लिए दो वर्ष।

बांछनीय :

होमगार्ड और सिविल रक्षा में 'आधारिक' और 'पुनरुत्थान'  
पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण।

(11)

75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और पच्चीस प्रतिशत आमेसन द्वारा बिसको न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

(12)

आमेसन : 2550-55-2660-60-3200 रु. के वेतनमान में केन्द्रीय सरकार के समूह 'ब' कर्मचारी बिन्दुओं उस श्रेणी में न्यूनतम पांच वर्ष नियुक्ति सेवा की हो । उनके पास प्राथमिक साक्षरता भी होनी चाहिए और हिंदी, अंग्रेजी या क्षेत्रीय भाषा को पढ़ने की अपनी योग्यता का सबूत होना चाहिए ।

(13)

समूह 'ब' विभागीय खोजति समिति ( पुष्टि कर विचार करने के लिए )  
जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

(14)

लागू नहीं होता ।

1. उप निदेशक — अध्यक्ष
2. सहायक निदेशक या सहायक इंजीनियर जो गंगा बाढ़ नियंत्रण  
आयोग, पटना से बाहर का हो — सदस्य
4. प्रशासनिक अधिकारी, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना — सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. चौकीदार	01*(2008) "कार्यभर के केन्द्रीय सेवा, आभार पर समूह 'ब', परिकर्तन किया अनाकपण्डित, जा सकता है। अनुसूचित	साधारण	2550-55-2660-60-3200 रु.	लागू नहीं होता	नहीं	18 से 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण 1: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । ( न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।) टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु- सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस को रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।



(8)	(9)	(10)
आवश्यक :	लागू नहीं होता	दो वर्ष
1. प्राथमिक स्तर बर्तीष ।		
सौजन्य :		
होमगार्ड और सिविल रक्षा में 'आधारिक' और 'पुनरुत्थान'		
घटवृत्तार्थ में प्रशिक्षण ।		

(11)	(12)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

(13)	(14)
समूह 'ब' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए)	लागू नहीं होता
जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	
1. उप निदेशक	—अध्यक्ष
2. सहायक निदेशक या सहायक इंजीनियर जो गंगा बाद नियंत्रण	—सदस्य
आयोग, पदभ से बाहर का हो	
4. प्रशासनिक अधिकारी	—सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. सकाई माला	01*(2008)	साधारण	2550-35	लागू नहीं होता	अर्द्ध	18 से 25 वर्ष के बीच ।
		कार्यभार के	कोषीय सेवा, 2008-08-			(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर
		आधार पर	समूह - 3200 रु			जाति किए गए अनुसूचित जातियों के
		परिवर्तन किया	अनुसूचित			अनुसार सीकरी सेवाओं के लिए की
		जा सकता है।	अनुसूचित			वर्ष तक शिथिल की जा सकता है)
		अनुसूचित				विद्यमान अनुसूचित सीकरी अवधारित
						करने के लिए निर्णयकारी तारीख भारत
						के अध्यक्षों को आवेदन प्राप्त करने
						के लिए निम्नलिखित तारीख
						होगी । (क कि वह अनुसूचित तारीख
						को असम, मेघालय, अरुणाचल
						प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैण्ड,
						हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश,
						के लक्ष्य ब्रह्म, हिमाचल प्रदेश के
						लक्ष्य और सीकरी जिले तथा चम्पा
						जिले के पूर्ण उपखंड, अरुणाचल और
						निम्नलिखित क्षेत्रों के अध्यक्षों
						के लिए शिथिल की गई है ।)
						विद्यमान 2. सरकार कोषीय के
						समय से की जाने वाली भर्ती की
						दरत में अनुसूचित सीकरी अवधारित करने
						के लिए निर्णयकारी तारीख वह अंतिम
						तारीख होगी जिसकी सीकरी रोचमार
						कार्यभारों के समूह अनुसूचित के लिए
						कहा गया है ।

(8)	(9)	(10)
आवश्यक :	लागू नहीं होता	दो वर्ष
1. प्राथमिक स्तर उत्तीर्ण ।		
वांछनीय :		
होमगार्ड और सिविल रक्षा में 'आधारिक' और 'पुनरुत्थान'		
पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण ।		
(11)	(12)	
सौकीं पाली द्वारा	लागू नहीं होता	
(13)	(14)	
समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए)	लागू नहीं होता	
जिसमें निम्नलिखित होंगे :-		
1. उप निदेशक	—अध्यक्ष	
2. सहायक निदेशक या सहायक इंजीनियर जो यंगा बंद निर्वहन	—सदस्य	
आयोग से बाहर का हो		
4. प्रशासनिक अधिकारी	—सदस्य	

[फा. सं. 22/4/2001-ई.आर./गंगा]

जितेन्द्र चड्ढा, अवर सचिव

New Delhi, the 8th August, 2008

G.S.R. 150.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ganga Flood Control Commission (Group 'D' Posts) Recruitment Rules, 1972, the Ganga Flood Control Commission (Junior Gestetner Operator—General Central Service Group 'D' (Non-Gazetted post)) Recruitment Rules, 1977, the Ganga Flood Control Commission (Group 'D' post) Recruitment Rules, 1984, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'D' posts in Ganga Flood Control Commission, under the Ministry of Water Resources, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, Ganga Flood Control Commission (Group 'D' posts) Recruitment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

5. **Liability of persons appointed as Peons, Safaiwala and Chowkidar, to undergo training as Home Guards.**—Notwithstanding anything contained in these rules, every person appointed as Peon, Safaiwala and Chowkidar under these rules excepting those who are physically handicapped, shall undergo training as Home Guards for a period of three years.

Provided that Commandant General, Home Guards may, having regard to the performance of and standard of training achieved by any person during the period of training, reduce such period to two years for reasons to be recorded in writing.

6. **Disqualifications.**—No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of the Post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post.	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I. Junior Gesteiner Operator	014 (2008) (*Subject to variation dependent on workload)	General Central Service Group 'D' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 2650-65-3300-70-4000	Non-Selection	No	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(11)	(12)
By promotion	Promotion: From amongst Senior Peons or Dafatarias with two years regular service in the pay scale of Rs. 2610-60-3190-65-3540 and having proficiency in operating and maintaining Gesteiner machines.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'D' Departmental Promotion Committee consisting of:—	Not applicable

(13)

- |    |   |            |
|----|---|------------|
| 1. | Deputy Director, Ganga Flood Control Commission,<br>Patna   | — Chairman |
| 2. | An Officer of the rank of Assistant Director or<br>Assistant Engineer from outside Ganga Flood Control<br>Commission, Patna | — Member   |
| 3. | Administrative Officer, Ganga Flood Control<br>Commission, Patna  | — Member   |

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Senior Peon	03* (2008) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'D', Non-Gazetted,, Non-Ministerial	Rs. 2610-60-3150-65-3540	Non-Selection	No	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(11)	(12)
By promotion	<b>Promotion :</b> From amongst Peons with two years regular service in the scale of Rs. 2550-55-2660-60-3200.

(13)	(14)
<b>Group 'D' Departmental Promotion Committee consisting of :—</b>	Not applicable

- |    |   |            |
|----|---|------------|
| 1. | Deputy Director, Ganga Flood Control Commission,<br>Patna   | — Chairman |
| 2. | An Officer of the rank of Assistant Director or<br>Assistant Engineer from outside Ganga Flood Control<br>Commission, Patna | — Member   |
| 3. | Administrative Officer, Ganga Flood Control<br>Commission, Patna  | — Member   |

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Daftary	01* (2008) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'D', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 2610-60-2900-65-3300-70-4000	Non-Selection	No	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable
(11)	(12)	
By promotion	Peons in the Ganga Flood Control Commission who have rendered at least two years regular service in the grade	
(13)	(14)	
Group 'D' Department Promotion Committee for consisting of:—		Not applicable.
1. Deputy Director Ganga Flood Control Commission, Patna	— Chairman	
2. Assistant Director or Assistant Engineer from outside Ganga Flood Control Commission, Patna	— Member	
3. Administrative Officer,	— Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. Peon	09* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'D', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 2550-55-2660-60-3200	Not applicable	Not applicable	Between 18-25 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands, and Lakhsadweep). In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names.

(8)	(9)	(10)
Essential : J. Middle School Standard pass	Not applicable	Two years for direct recruits
Desirable : Training in 'Basic' and 'Refresher' Courses in Home Guards and Civil Defence.		

(11)	(12)
Seventy five per cent by direct recruitment and twenty five per cent by absorption failing which by direct recruitment.	<b>Absorption :</b> Group 'D' employees of the central Government in the pay scale of Rs. 2550-55-2660-60-3200 who have put in a minimum of five years regular service in the grade. They should also possess elementary literacy and give proof of their ability to read either in Hindi, English or a regional language.

(13)	(14)
<b>Group 'D' Department Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :—</b>	Not applicable.
1. Deputy Director	—Chairman
2. Assistant Director or Assistant Engineer from outside Ganga Flood Control Commission, Patna	—Member
3. Administrative Officer, Ganga Flood Control Commission, Patna	—Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. Chowkidar	01* (2008) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'D', Non-Gazetted/ Non-Ministerial	Rs. 2550-55-2660-60-3200	Not applicable	No	Between 18-25 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti districts and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). Note 2 : In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names.

(8)	(9)	(10)
<b>Essential :</b> 1. Primary Standard pass.	Not applicable	Two years for direct recruits
<b>Desirable :</b> Training in 'Basis' and 'Refresher' Courses in Home Guards and Civil Defence.		

(11)	(12)
By direct recruitment	Not applicable

(13)	(14)
<b>Group 'D' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :—</b>	Not applicable.
1. Deputy Director	— Chairman
2. Assistant Director or Assistant Engineer from outside Ganga Flood Control Commission, Patna	— Member
3. Administrative Officer,	— Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. Safaiwala	01* (2008) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'D', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 2550-55-2660-60-3200	Not applicable	No	Between 18-25 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti districts and Pangri Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep). Note 2 : In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names.

(8)	(9)	(10)
<b>Essential :</b> 1. Primary Standard pass. <b>Desirable :</b> Training the 'Basic' and 'Refresher' Courses in Home Guards and Civil Defence.	Not applicable	Two years
(11)	(12)	
By direct recruitment	Not applicable	
(13)	(14)	
<b>Group 'D' Department Promotion Committee (for considering            confirmation) consisting of :—</b> 1. Deputy Director — Chairman 2. Assistant Director or Assistant Engineer from outside Ganga Flood Control Commission, Patna — Member 3. Administrative Officer, — Member	Not applicable.	

[F. No. 22/4/2001-IR/Ganga]

JEETENDAR CHADHA, Under Secy.